

कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं

प्रिय माँ,

प्रणाम

आशा है, तुम ठीक होगी | बहुत दिनों से फ़ोन पर तुमसे बात नहीं हुई | सोचा, अब तुम्हें हिंदी में पात्र लिखूँ | हिन्दी में लिखने का ज़्यादा अभ्यास नहीं है, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं |

मैं रोज़ सुबह छः बजे उठना हूँ | स्नान करने के बाद गीता पढ़ना हूँ | गीता पढ़ना से मन शान्त रहता है | व्यायाम और योग भी करता हूँ | करीना आंटी कहती हैं कि व्यायाम और योग करने से मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा मेरी एकाग्रता बढ़ेगी |

पहले मुझे हिन्दी नहीं आती थी | हमारे अभ्यापक मोदीजी के सिखाने से अब मुझे हिंदी आती है | हिन्दी पढ़ने और लिखने में आनन्द आता है | हिन्दी सीखने से ही भारत में रहने का आनन्द है | लोगों के साथ मेल-जोल बढ़ाने में सुविधा रहती है |

तुम्हारा पढ़ना-लिखना कैसा चल रहा है ? पिताजी को प्रणाम | अपना खयाल
रखना |

तुम्हारा प्यारा बेटा

दीपक

1- İsim-fiillerin kullanımlarını öğrenerek metin içerisindeki örneklerini analiz etmek.

